Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref: MUL/SEC/2024-25/56 Date: August 28, 2024

To,
BSE Limited
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
(Maharashtra)
(Scrip Code: BSE- 522249)

National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5thFloor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051 (Maharashtra)

(Trading Symbol: MAYURUNIQ)

Subject: Newspaper advertisement relating - Notice to eligible shareholders for Buyback of Equity Shares of the Company.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30, Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published Newspaper Advertisement dated August 27, 2024 for Buyback of equity shares in the English and Vernacular Language newspaper on August 28, 2024, please find attached herewith copies of the advertisement published.

The copy of the newspapers are also available on the Company's website i.e. www.mayuruniquoters.com

Kindly take above information on record.

Thanking you,

For Mayur Uniquoters Limited

Pawan Kumawat Company Secretary and Compliance Officer M. No. – ACS 25377

FINANCIAL EXPRESS

Regd. Office: 'PGP House', New No.57, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai 600 034. Tel. No. 91-44-28311313, Fax No. 091-44-28232074, CIN - L65191TN1990PLC019152 Email id: secretarial@dharanifinance.com | Website: www.dharanifinance.com INFORMATION REGARDING 34th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF DHARANI FINANCE LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Dharani Finance Limited (the Company) will be held on Wednesday, the 25th day of September 2024 at 11.00 A.M. through video conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in Compliance with applicable provisions of the Companies Act. 2013 and rules issued thereunder read with provision of the Companies Act, 2013 (,the Act), Listed Regulatios and Circulars dates 25th September2023 read with General Circulars dated 28th December, 2022, 5th May 2022, 14th December 2021, 13th January, 2021, 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, (collectively referred to as 'MCA Circulars) issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and SEBI circulars dated 7th Ocvober, 2023 read together with circulars dates 5th January, 2023, 13th May, 2022, 15th January, 2021 and 12th May, 2020 to transact the business, as set out in the Notice convening the 34th AGM of the Company. In compliance to the MCA Circulars and SEBI Circulars, the electronic copies of the Notice of the 34th AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2023 - 24 will be sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent or Depository Participant(s). The Notice of the 34th AGM and Annual Report for the financial year 2023 - 24, will also be available on the website of the Company at www.dharanifinance.com and website of stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com Shareholders can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the notice of AGM. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.

Manner of voting at the AGM:

Shareholders will have an Opportunity to cast their votes remotely or e-voting during the AGM on the business to set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely or e-voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialized form, physical form and for shareholders who have not registered their email addresses shall be provided in the Notice convening the AGM.

Manner of registering / updating email addresses : a) Shareholders holding shares in physical form and who have registered / updated their email addresses with the

Company are requested to register / update their email addresses by sending a duly signed request letter in form ISR-1 along with supporting documents to Company's Registrar and Transfer Agent i.e. CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED 'Subramanin Building', No.1, Club House Road, Chennai - 600 002. Phone: (D) 2846 0425, Fax: 044-2846 0129 Grams: CAMEO E-mail: cameo@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com providing Folio No. and Name of the Shareholder and a self-attested copy of the PAN Card.) Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to register update their email addresses with the

relevant depository Participant(s). The above information is in complains with the MCA Circular(s) and SEBI Circular(s). for Dharani Finance Limited

Date: August 28, 2024

Place: Chennai

By order of the Board

HINDUSTAN ZINC LIMITED HINDUSTAN ZINC Regd Office : Yashad Bhawan, UDAIPUR-313 004 (Rajasthan) Zinc & Silver of India

Dr. Palani G Periasamy



Tel: +91-294-6604083 Email: HZL.secretarial@vedanta.co.in CIN: L27204RJ1966PLC001208 website: www.hzlindia.com NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education & Protection Fund (IEPF) NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of section 124(6)of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016and subsequent amendments thereto ("Rules")notified by the Ministry of Corporate Affairs, that the Company is required to transfer all shares wherein dividend is unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years by the shareholders of the Company to Investor Education & Protection Fund ("IEPF").

As per the Rules, the individual notices required to be sent to the respective shareholders informing them regarding the transfer of shares, are being sent at their registered addresses.

Accordingly, it is requested to the shareholders of the Company to claim the unpaid/unclaimed dividend due to you, if any, from FY 2017-18 (Interim Dividend) onwards by sending signed request letter alongwith the original cancelled cheque stating the first named shareholder as the account holder in case you hold shares in physical form or self-attested copy of Client Master List with your updated bank account details, in case you hold shares in demat form to the Company's Registrar & Transfer Agent, M/s KFin Technologies Limited at below mentioned address.

In case the Company does not receive any claim from the concerned shareholders by November 15, 2024, or such other date as may be extended, the Company, with a view to comply with the requirements as set out in the Rules, shall transfer the shares and unpaid/unclaimed dividend amount to the IEPF Authority without any further notice as per the procedure laid by IEPF Authority. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend

amount and equity shares so transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

The concerned shareholders may note that they can claim such transferred shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by submitting an online application in IEPF-5 Form and complying with the necessary procedures as prescribed by the Rules on the website of www.iepf.gov.in.

For any queries on the subject matter,

- You may contact the Registrar & Transfer Agent(s): M/s KFin Technologies Limited, Unit Hindustan Zinc Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot 31-32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032. Tel: +91 40 67162222; Email ID: einward.ris@kfintech.com
- Members may also write to the Company at the registered office or send an e-mail to HZL.Secretarial@vedanta.co.in. For Hindustan Zinc Limited

Place: Mumbai Date: August 28, 2024

Harsha Kedia Company Secretary and Compliance Officer

Membership No.: ACS 21520

MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

CIN: L18101RJ1992PLC006952 Registered Office: Village Jaitpur, Jaipur-Sikar Road Place, Jaipur, Rajasthan 303 704 | Tel: 01423-224001

Corporate Office: 28, 4th Floor, Lakshmi Complex, M.I. Road, Jaipur - 302001, Rajasthan Tel. No.: 0141-2361132, Website: www.mayuruniquoters.com, E-mail: secr@mayur.biz

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS IN REGARD TO BUYBACK OF SECURITIES This advertisement ("Advertisement") is being issued by Mayur Uniquoters Limited ("Company"), to the Eligible Shareholders holding

- Equity shares as on the Record Date (i.e., Friday, August 23, 2024), in regard to the buyback of up to 5,00,000 (Five Lakh Only) fully paidup equity shares of the Company, each having a face value of INR 5/-(Indian Rupees Five only) ("Equity Shares"), on a proportionate basis, through the "tender offer" route in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") using Stock Exchange Mechanism, at a price of INR 800/-(Indian Rupees Eight Hundred only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding INR 40,00,00,000 (Indian Rupees Forty Crores only) excluding Transaction Costs ("Buyback"). The Public Announcement dated Friday, August 9, 2024 in regard to the Buyback was published on Monday, August 12, 2024.
- On Tuesday, August 27, 2024 the Company has also sent the Letter of Offer dated Monday, August 26, 2024 along with the Tender Form only in electronic form to all Equity Shareholders/ Beneficial Owners of Equity Shares as on the Record Date who have registered their e-mail IDs with the Depositories/ the Company, in accordance with the Buyback Regulations and such other circulars or notifications, as may be applicable. Further, in terms of Regulation 9(ii) of the Buyback Regulations, if the Company receives a request from any Eligible Shareholder for a physical copy of the Letter of Offer, the same shall be provided. Please refer to paragraph 20.28 on page 45 of the Letter of Offer for further details.

A brief schedule of activities in relation to the Buyback are set out below:

Activity	Date	Day
Buyback Opening Date	August 29, 2024	Thursday
Buyback Closing Date	September 04, 2024	Wednesday
Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents by the Registrar to the Buyback	September 04, 2024	Wednesday

For a detailed schedule of activities, please refer to page 4 of the Letter of Offei

The details of the Buyback Entitlement are as follows:

Buyback Entitlement*	
1 (One) Equity Share for every 27 (Twenty-Seven) Equity Shares held on the Record Date	
General Category for all other eligible Shareholders 3 (Three) Equity Share for every 296 (Two Hundred and Ninety-Six) Equity Shares held on the Record Date	

using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved Category for Small Shareholders is 3.71143448427391% and General Category for all other Eligible Shareholders is 1.01355013989615%. Also, the numbers arrived at using the actual Buyback Entitlement may not conform exactly to the Buyback Entitlement printed in the Tender Form due to rounding-off of the factor. For further information on the ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each category, please refer paragraph 19.6 on page no. 36 of the Letter of Offer.

- The steps to be followed by Eligible Shareholders in order to check their Entitlement on the website of the Registrar to the Buyback as provided on the cover page of the Letter of Offer are:
- Click on https://www.beetalmail.com/ipod
- Select the name of the Company Mayur Uniquoters Limited CLICK ON DPID/Client-ID/Folio No Query
- Enter your "Folio Number" or "NSDL DPID/Client ID" or "CDSL Client ID" Then click on 'Search' button
- The entitlement will be displayed on the screen
- Download appropriate form and fill up the details
- A copy of the Letter of Offer (along with the Tender Form and Form SH-4) shall be available on the websites of the Company

13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065.

- (www.mayuruniquoters.com), Manager to the Buyback (www.dnafinserv.com), Registrar to the Buyback (www.beetalfinancial.com) and is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com). In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts full and final responsibility for all the information contained
- in this Advertisement and confirms that this Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.
- Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

REGISTRAR TO THE BUY-BACK MANAGER TO THE BUY-BACK

BEETAL FINANCIAL & COMPUTER SERVICES PVT. LIMITED D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED

Centre, Near Dada Harsukh Das Mandir, New Delhi- 110 062 Tel.: +91 11 41326121, 40167038; **Tel No.:** +91 11-29961281-83; Fax No.: +91 11-29961284 Contact Person: Ms. Radhika Pushkarna/ Mr. Amitkumar Gattan Contact Person: Mr. Punit Mittal E-mail: investors@dnafinserv.com; Website: www.dnafinserv.com Email: beetal@beetalfinancial.com;beetalrta@gmail.com SEBI Regd. No. INM000011484 Website: www.beetalfinancial.com Validity Period: Permanent

SEBI Registration No.: INR000000262 Validity Period: Permanent CIN: U67120DL1993PTC052486

For and on behalf of the Board of Directors of Mayur Uniquoters Limited

Chairman and Managing Director & CEO DIN: 00022395 Date: 27-08-2024

Suresh Kumar Poddar

CIN: U74899DL1981PTC012709

Place: Jaipur

Arun Kumar Bagaria Whole Time Director DIN: 00373862

Pawan Kumar Kumawat M. No: ACS25377

BEETAL HOUSE, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping

Company Secretary and Compliance Officer

SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LIMITED

CIN: L24114RJ2005PLC021340 S.G. 2730 SUWANA, BHILWARA - 311011, RAJASTHAN, INDIA

Website: www.srdyechem.com, Email ID: info@srdyechem.com, Ph: 01482-220062

held on Saturday, 21st September, 2024 at 02:00 pm through VC/OAVM.

19th Annual General Meeting Notice Notice is hereby given that 19th Annual General Meeting of the members of Shankar Lal Rampal Dye-Chem Limited will be

The Ministry of Corporate Affairs ('MCA') has vide its General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, December 20, 2022, 09/2023 dated 25th September, 2023 and SEBI vide its Circular dated 7th October 2023, and other circulars issued in relation to "Relaxation from Compliance with certain provisions of SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") permitted holding of the Annual General Meeting("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. The Annual Report of the Company for FY 2023-24 along with Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Company at www.srdyechem.com. In accordance MCA and SEBI Circular; owing to the difficulties involved in dispatching of physical copies of the financial statements (including Report of Board of Directors, Auditor's report or other documents required to be attached therewith), such statements including the Notice of AGM are being sent in electronic mode to Members whose e-mail address is registered with the Company or the Depository Participant(s) based on Cut Off date Friday, August 09, 2024. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the AGM Notice is also available on the website of NSDL(agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com .

The Members can participate in the AGM through VC/OAVM only, cast their vote via E-voting(during E-Voting period or at the AGM) and instructions for the same are duly provided in the AGM Notice itself. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies The Company has fixed 30th August, 2024 as the 'Record Date' for determining entitlement of members to final dividend

for the financial year ended March 31, 2024, if approved at the AGM. The Board has recommended Final Dividend of Rs. 0.05(0.50% of Paid Up Value) which will be subject to approval by

shareholder in their AGM. Further in order to receive dividend in a timely manner, Members who have not updated their mandate for receiving dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means can register their Electronic Bank Mandate at least 5 days before Record date. Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable at the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to members at prescribed rates. For the prescribed rates for various categories the members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The members are requested to update their PAN with Registrar and Transfer Agents (in case of shares held in physical mode) and depository participants (in case shares The Company is pleased to provide e-voting facility to all its shareholders to cast their votes electronically on all the

resolutions mentioned in the notice of 19th Annual General Meeting of the Company dated 23rd August, 2024 (the AGM Notice). The e-voting rights of the shareholders/ beneficial owners shall be reckoned proportionate to the equity shares held by them at the end of business hours on 15th September, 2024. The E-Voting shall start on Wednesday, 18th September, 2024(09:00 AM onwards) to Friday, 20th September, 2024(Till 05:00 PM); NSDL will block E-voting after that. The members who have not updated their correct E-mail ID with its Depositary Participant(DP) or Company's RTA-Cameo Corporate Service Limited, or the member who acquired shareholding after cut-off date of sending Notice but before Cut-off Date of evoting; it may update the correct Email ID with RTA of the Company by sending proper request letter and can send the request to company's designated email Id-cs@srdyechem.com. The detailed Instructions E-Voting, attending meeting via VC/OAVM, Speaker Registration, etc. are available in the AGM

Notice emailed to members and uploaded on Investor Relation Tab of company's website-www.srdyechem.com/ Members are requested to go through the same. The assistance can be seek from E-Voting Service Provider NSDL at evoting@nsdl.co.in For and on behalf of

> SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LIMITED Aditi Babel Company Secretary & Compliance Officer M.No.-A55675

Place: Bhilwara

Date: 23/08/2024

ASIAN ENERGY SERVICES LIMITED

CIN: L23200MH1992PLC318353 Regd. Office: 3B, 3rd Floor, Omkar Esquare, Chunabhatti Signal,

Eastern Express Highway, Sion(East), Mumbai - 400022, Maharashtra, India Tel. No.: 022-42441100 Email: secretarial@asianenergy.com Website: www.asianenergv.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that 1/2024 Extra-ordinary General Meeting ('EGM' or 'Meeting') of the Members of Asian Energy Services Limited ('the Company') will be held on Thursday, September 19, 2024 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") facility/other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business as set out in the Notice of the EGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular no. 14/2020 dated April 2020, General Circular no.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular no. 19/2021 dated December 8, 2021, General Circular no. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular no. 2/2022 dated May 5, 2022 and General Circular no. 10/2022 dated December 28 2022 and General Circular no. 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7 2023 issued by Securities Exchange and Board of India ("SEBI"), permitted the holding of the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the members at a common venue of the

In terms of MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the EGM along with the explanatory statement of special business to be transacted at the EGM, has been sent by email on August 27 2024 through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent ('RTA') and Depository Participants ('DP') for seeking approval of the members of the Company by way of Special Resolution by voting through Electronic Means only on the following matter:-

 Issue of 48,00,000 Convertible Equity Warrants, convertible into Equity Shares on preferential basis to certain identified Non-Promoter persons/entities.

The Company has engaged the services of National Securities Depositories Limited (NSDL) for providing E-Voting facility to all its Members.

The requirements of sending physical copies of the Notice of the EGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circulars. Notice convening EGM is also available on the website of the Company at www.asianenergy.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

Mr. Hemanshu Kapadia, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS - 3477 & C.P. No. 2285) of M/s. Hemanshu Kapadia & Associates, Practicing Company Secretaries or failing him Mrs. Pooja Jain, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 8160 & C.P. No. 9136) of VPP & Associates, Practicing Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the evoting process.

Remote e-Voting:

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India ('ICSI') and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('SEBI Listing Regulations') the Company is providing facility to all its Members to cast their votes on all the resolution set forth in the Notice of the EGM by electronic means (e-voting) by using electronic voting system provided by NSDL either by remote e-voting before as well as during the EGM.

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period: Commencement of remote e-Voting from 9.00 a.m. (IST) on Monday, September 16, 2024

End of remote e-Voting upto 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, September 18, 2024 The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and members will

not be allowed to vote electronically beyond the said date and time

 The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on 12th September, 2024 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting.

as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before during the EGM: Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company

A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners

after the dispatch of this Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the loginid and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then he can use his existing login and password and cast his vote. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the

Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again. The Members of the Company holding shares in physical/demat form and who have not

registered/updated their email addresses with the Company / Registrar & Transfer Agents/ Depository Participants are requested to send the following documents/information via email to secretarial@asianenergy.com or rnt.helpdesk@linkintime.co.in in order to register/update their email addresses Name registered in the records of the Company

- Email id and Mobile Number
- DP ID Client ID (For Shares held in Demat)

Place: Mumbai

Date: August 28, 2024

- Scanned copy of the share certificate front and back (For Shares held in Physical)
- Self-attested scanned copy Pan and Aadhar.

In case of any queries / grievances connected with remote e-Voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

> For Asian Energy Services Limited Ms. Shweta Jain

> > Company Secretary

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED (Formerly known as SHRIRAM TRANSPORT FINANCE **COMPANY LIMITED)**

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our Rourkela **Branch** located at Second Floor, JBS Complex. Near Uditnagar Police Station, Surendergarh, Rourkela, Sundargarh, Odisha -769012 will shift to Second Floor, Shop No. A 15, APL Complex, Uditnagar, Rourkela, Sundergarh, Odisha - 769012 from 02nd December, 2024.

contact the new office premises for their needs. **REGIONAL BUSINESS HEAD**

SHRIRAM

TRANSPORT FINANCE **COMPANY LIMITED)**

PUBLIC NOTICE

public at large that our Joginder Nagar Branch located at Shop No. 1, Ward No. 1, Laxmi Bazaar, Joginder Nagar, Beside UCO Bank, Himachal Pradesh - 175032 will shift to First Floor, Near Anshdeep Hotel ,Village Dhelu, Tehsil Joginder Nagar, Mandi, Himachal Pradesh - 175015 from 2nd December, 2024.

contact the new office premises for their needs.

The Customers are requested to

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED (Formerly known as SHRIRAM TRANSPORT FINANCE

public at large that our Jorethang **Branch** located at First Floor, Arjun Minda Building, Daragaon, Jorethang, South Sikkim, Sikkim -737121 will shift to First Floor, Jorethang Bazar, Nayabazar, Forest Block, Beside RTO & Police Station, Jorethang, South Sikkim, Sikkim - 737121 from 03rd December, 2024. The Customers are requested to contact the new office premises for

SHRIRAM FINANCE LIMITED

TRANSPORT FINANCE

COMPANY LIMITED)

This is to inform our customers and This is to inform our customers and

> The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

BINOD JUTE AND FIBRE LIMITED (CIN: L17232WB1980PLC032819)

Telephone No. - 033 22872607/ 40060331/ 40073219; Website: https://binodjute.com/ Email: jkk@kankariagroup.com Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Binod Jute and

Fibre Limited "the Company" or "BJFL") on the voluntary delisting offer made by Ms Poonam Dugar, (Acquirer) on her behalf and on behalf of the Promoter Group of BJFL to the Public Shareholders of the Company for acquiring all the equity shares that are held by the public shareholders and delist the equity share from The Calcutta Stock Exchange (CSE) ("Delisting Offer") pursuant to Regulation 28 of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations"). Date

	200	1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1	Name of the Company	BINOD JUTE AND FIBRE LIMITED
	Details of offer pertaining to the Company	Initial Public Announcement ("IPA") made under Regulation 8 of the SEBI Delisting Regulation to the Public Shareholders of BJFL for acquisition of 22400 Equity Share ("Offer Shares") of Face Value Rs. 10/Each ("Equity Shares") representing 4.05% of the total Paid Up Equity Share Capital of the Company and consequent Voluntary Delisting of the Equity Shares of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") ("Delisting Offer") ("The Offer"). • Methodology for Delisting: Through reverse book building: process
	Name of the Acquirer	Ms. Poonam Dugar, on her behalf and on behalf of Promoters Promoter Group of BJFL
	Name of the Manager to the Offer	Gretex Corporate Services Limited Reg. Address: A-401, Floor 4th, Plot FP- 616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapa Marg, Near India bulls, Dadar (West), Mumbai - 400013
	Floor Price/Offer Price	Rs. 224.30/-
-1		The first transfer of the contract of the cont

Company (Director, Equity Share Owned and Other Contract/Relationship) if any

Independent Directors (IDC)

the company by IDC Members

contracts, nor have any relationship with the Acquirers and nor have traded in Shares of the Acquirers or related to the Acquirers. Based on the review, IDC members believe that the Offer is fair and Reasonable and In

Disclosures of the Voting Pattern in the meeting of Independent Directors to discuss delisting Summary of reasons for recommendation

and reasonable.

 a. Initial Public Announcement dated Apri 29, 2024 b. Outcome of meeting of Board of Directors of the Company held on May

August 21, 2024

August 23, 2024 Based on the above members of the Committee have considered the following

flexibility to support the Company's business.

2. The Delisting Offer will provide the public shareholders of the Company an opportunity to realize immediately termined in accordance with the

The delisting of equity shares will result in reduction of the on-going compliance cost or such other expenses required to be incurred asper the applicable securities law and reduce the management time to

Based on the review of documents and the reasons mentioned above, the members of the Committee believe that the Delisting Offer is in accordance with the SEBI

the SEBI Delisting Regulations market performance of the Company's scrip and take informed decision in respect of the

This statement of recommendation of Com mittee will be available on the website of the Company.

Any other matter related to the highlighted None To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the

tions, 2021. For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Binod Jute and Fibre Limited,

Date: August 27, 2024

COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and The Customers are requested to

> their needs. **REGIONAL BUSINESS HEAD**

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED (Formerly known as SHRIRAM (Formerly known as SHRIRAM

PUBLIC NOTICE

public at large that our Gandhi Nagar - I Branch located at Plot No. E-20, Shop No.-G-19, K-7 Corner, GIDC Electric Estate, Sector - 26, Gandhinagar, Gujarat 382022 will shift to Second Floor, Shop No. A/1, District Shopping Center, Sector - 21, Gandhinagar. Gujarat - 382021 from 03rd December, 2024.

REGIONAL BUSINESS HEAD

Registered Office: Ground Floor, 5A, Little Russell Street Kolkata-700071

August 27,2024

Members of the Committee of Mr. Pankaj Bothra: Independent Director 2. Mr. Manak Chand Parakh: Independent

Director IDC Members Relationship with the All the members of the IDC are Non Executive Independent Directors of the Company, Except for being Directors of the Company, The Committee Member

tionship with the Company. Trading in Equity Shares/ Securities of None of the IDC Members have traded in any securities of BJFL during 12 months prior to the IPA on April 29, 2024 and during the period from the date of the IPA and till

Acquirers (Directors, Equity shares owned, and other contract/Relationship Recommendation on Delisting Offer, as to whether the offer, is or is not, fair

> All the IDC Members unanimously voted in favour of recommending the voluntary delisting offer proposal. IDC Members have reviewed and Noted

c. Postal Ballot Notice dated May 03, 2024 d. Scrutinizer report dated June 12, 2024

Detailed Public Announcement dated g. Letter of Offer dated August 27, 2024

reasons for making recommen dations: 1. The proposed Delisting Offer would enable the Acquirer to obtain full ownership of the Company which will intum provide increased operational

a certain value for their equity shares in the Company. The price will be de reverse book building mechanism set out in the SEBI Delisting Regulations

comply with requirements and listing regulations.

shareholders of the Company to bid their equity shares (as announced by the Acquirer and disclosed in DPA and LOF) in reverse book building process in accordance with The Committee, however, suggests that the public shareholders of the Company should independently evaluate the Delisting Offer

information required to be disclosed by the company under the SEBI Delisting Regula-

Place: Kolkata Uttam Kumar Bothra Chairman-Committee of Independent Director

Director Mr. Uttam Kumar Bothra: Independent

neither hold any equity shares in the com pany nor do they have any contract/rela

date of this recommendation. IDC Member's relationship with the None of the IDC Members hold any

> line with the SEBI SAST Regulations, 2011 and SEBI Delisting Regulations, 2021

e. In-Principle approval from CSE dated

Delisting Regulations and to that extend, is fair and reasonable. The Committee recommends the public

Delisting Offer.

financialexp.epapr.in

19

is sourced from the annual reports/ financial results as available of the respective company for the year ended March 31, 2024 submitted to stock exchanges or on Company's website as available.

a) The figures for Boss Packaging Solutions Limited are based on the Restated Financial Statements for the period ended March 31, 2024.

b) The figures for the peer group are for the year ended March 31, 2024 and are based on their standalone financial

statements, unless specified filed with Stock Exchange. d) NAV is computed as the closing net worth divided by the closing outstanding number of equity shares. Net worth has been computed as the aggregate of share capital and reserves and surplus (excluding Revaluation Reserves) and as attributable

to the owners of the Company. e) P/E Ratio for the peer has been computed based on the closing market price of respective equity shares as on August 23,

2024 sourced from website of Stock Exchange as divided by the Basic/diluted EPS as applicable, RoNW is computed as net profit after tax, as attributable to the owners of the Company divided by closing net worth. Net worth has been computed as the aggregate of share capital and reserves and surplus (excluding Revaluation Reserves) and as attributable to the owners of the Company.

7. Weighted average cost of acquisition

a) The price per share of our Company (as adjusted for corporate actions, including split, bonus issuances) based on the primary/ new issue of Equity Shares or convertible securities (excluding Equity Shares issued under the ESOP Scheme and issuance of Equity Shares pursuant to a bonus issue) during the 18 months preceding the date of the Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of our Company in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days("Primary Transactions")

Except mentioned below, there has been no issuance of Equity Shares, other than Equity Shares issued pursuant to a bonus issue on July 15, 2023 during the 18 months preceding the date of the Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days.

Name	Date of Acquisition	Financial year in which tranches of consideration was paid	Date of Allotment	Number equity shares allotted	Price ₹	Total Consideration (₹ in lakhs)
May 12, 2023	10,335	10.00	1,450 (including premium of ₹ 1440/- per share)	Cash	Private Placement	149.86
Total	16		9			149.86
Weighted avera	ge cost of acq	uisition (primary issuanc	es)		-	1450.00

 The price per share of our Company (as adjusted for corporate actions, including split, bonus issuances) based on the secondary sale / acquisition of Equity Shares or convertible securities involving any of the Promoter, members of the Promoter Group or Shareholders with rights to nominate directors during the 18 months preceding the date of filing of the Prospectus, where the acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of our Company, in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days ("Secondary Transactions").

There have been no secondary sale / acquisitions of Equity Shares, where the Promoter, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of the certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

 Since there is an eligible transaction of our Company reported in (a) above in accordance with paragraph (9)(K)(4)(a) of the SEBI ICDR Regulations, the price per Equity Share of our Company based on the last five primary or secondary transactions in Equity Shares (secondary transactions where the Promoter/ Promoter Group entities or Shareholders having the right to nominate director on the Board are a party to the transaction) not older than 3 years prior to the date of filing of the Prospectus not been computed.

d) Weighted average cost of acquisition and Issue Price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (* per Equity Shares) *	Issue Price ₹ 66 per Equity Shares
I. Weighted average cost of acquisition for last 18 months for primary / new issue of shares (equity / convertible securities), excluding shares issued under an employee stock option plan / employee stock option scheme and issuance of bonus shares, during the 18 months preceding the date of filing of the Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	1450.00	21.97 times
II. Weighted average cost of acquisition for last 18 months for secondary sale/acquisition of shares equity/convertible securities, where promoter/promoter group entities or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board area party to the transaction, during the 18 months preceding the date of filling of the Prospectus, where either acquisition nor sale is equal to or more than five percent of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	NA ^	NA ^

III. Since there are transactions to report to under (I) and (II) above, the information has been disclosed for price per share of our Company based on the last five primary or secondary transactions where our Promoter/members of our Promoter Group or Shareholder(s) having the right to nominate NA ^ NA ^ director(s) on the Board of our Company, are a party to the transaction, during the three years prior to the date of filing of the Prospectus irrespective of the size of the transaction, is as below. Type of transactions WACA (in ?) WACA (in ₹) a) WACA* of Equity Shares based on primary issuances undertaken during the three immediately preceding years. b) WACA*of Equity Shares based on secondary transactions under taken NA ^ NA ^ during the three immediately preceding years

WACA has been mentioned as N.A. since there have been no transactions excluding bonus issuance.

• There were primary / new issue of shares (equity/ convertible securities) transactions in last 18 months from the date of the Prospectus.

^ There were no secondary sales / acquisition of shares of shares (equity/ convertible securities) transactions in last 18 months from the date of the Prospectus, which is in excess of 5%, of the fully diluted paid up share capital of the Company

8. The Issue Price is 6.60 times of the face value of the Equity Shares.

The Issue Price of ₹ 66 has been determined by our Company in consultation with the LM and is justified in view of the above qualitative and quantitative parameters.

The trading price of Equity Shares could decline due to factors mentioned in "Risk Factors", on page 23, of the Prospectus and you may lose all or part of your investments, Applicant should read the above-mentioned information along with "Our Business", "Management's Discussion and Analysis of Financial Position and Results of Operations" and "Restated Financial Statements" on pages 101, 187 and 145 respectively of the Prospectus, to have a more informed view before making an investment decision.

GENERAL RISK

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specified attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 23 of the Prospectus.

CREDIT RATING: This being the issue of Equity Shares, no credit rating is required.

DEBENTURE TRUSTEES: As this is an issue of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required.

IPO GRADING: Since this issue is made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency.

BASIS OF ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by the Company, in consultation with the Lead Manager. The financial data presented in section "Basis of Issue Price" on page 77 of 145 respectively of the Prospectus.

INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013: Contents of Main Objects as per Memorandum of Association of our Company.

MAIN OBJECTS AS PER MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY For information on the Main Objects of the Company, please see "History and Certain Corporate Matters" on page 125 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association

of our Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document which is available for inspection in relation to the Issue. For further details, please see "Material" Contracts and Documents for Inspection" on page 266 of the Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS

Liability of the Members of the Company is Limited.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE

Authorised Share Capital is ₹ 500.00 Lakhs divided into 50,00,000 Equity Shares of face value of ₹10.00/- each, Issued, Subscribed and prior to the issue is ₹ 317.22 Lakhs divided into 31,72,260 Fully Paid Equity Shares of ₹10.00/- each. Proposed Post Issue Paid-up Share Capital ₹ 317.22 Lakhs divided into 44,62,260 Equity Shares of ₹10.00/-each. For details of the Share Capital and Capital Structure of the Company, please refer to chapter titled "Capital Structure" on page 59 of the Prospectus.

NAME OF THE SIGNATORIES TO MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND THE NUMBER OF SHARES SUBSCRIBED BY THEM Manishbhai Navratbhai Brahmbhatt, Jagrutiben Manishbhai Brahmbhatt and Ketan Survakant Thakkar were the original subscribers to the Memorandum of Association who subscribed

6,000, 2000 and 2,000 Equity Shares each respectively of ₹10.00/- each aggregating to 10,000 Equity Shares.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE Tel No.: +91 81049 85249;

FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED B 7, 3rd Floor, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle - (East), Mumbai - 400 057, Maharashtra, India

Investor Grievance Email: mb@fedsec.in; Website: www.fedsec.in: Contact Person: Salpan Sanghvi SEBI Registration No.: INM000010163

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District. Nanakramguda, Serilingampatly, Hyderabad - 500 032, Telangana ,india... Tel No.: +91 4067162222 Fax No.: NA Email: bpsl.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com

Contact Person: Mr. M Murali Krishna

SEBI Registration No.: INR000000221

REGISTRAR TO THE ISSUE

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Sweta Sandip Prajapati

11-C, Survey No. 56/1/2/3, Ramdev Estate Near Siddipura Estate Opposite Ramol Mehmdabad Highway, Vin Zol Road, Ahmedabad, Gujarat 382445 India Tel No: 079-48972009

Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as nonreceipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

NOTICE TO THE INVESTORS CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED AUGUST 24, 2024 ("THE CORRIGENDUM") With reference to the Prospectus dated August 24, 2024 filed by the Company with RoC and the National Stock Exchange of India Limited in relation to the Issue, the Applicants should note

the following:

 On Cover page on page 2 of the Prospectus, it shall be read as "THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS [] 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 6.60 TIMES OF THE FACE VALUE" 2. On page 115 of the Prospectus, under chapter tiltled "Our Business" on page 115 of the Prospectus, it shall be read as "Our Company has not obtained registration however has made applications for the registration of the trademark with Trademark Registry, Government of India as stated below."

AVAILABILITY OF PROSPECTUS Investors should note that Investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying the Prospectus are based on Company's Restated Financial Statement" on page 23 and in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of our Company Website

at www.bosspackaging.in and also on website of Lead Manager at www.fedsec.in. AVAILABILITY OF PROSPECTUS AND APPLICATION FORMS Copies of the Application Form and the Prospectus will be available at the offices of the LM, the Designated Intermediaries at Bidding Centers, and Registered Office of our Company. An

electronic copy of the Application Form will also be available for download on the websites of the Stock Exchange(s), the SCSBs, the Registered Brokers, the RTAs and the CDPs at least one (1)

day prior to the Offer Opening Date.

Date: August 27, 2024

Place: Gujarat

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") The investors are required to fill the application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DPs. The SCSBs will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid

for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in Application Form and the Prospectus and also please refer to the chapter titled "Issue Procedure" on page 222 of the Prospectus

APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS INTERFACE ("UPI") APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS INTERFACE: Investors are advised to carefully refer SEBI Circular SEBI/H0/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 01, 2018 hrough its SEBI circular (SEBI/HO/CFD/ DII2/CIR/P/2019/S0) dated April 3, 2019, SEBI circular (SEBI/HO/CFD/DII,2/CIR/P/2019/76) dated June 28, 2019, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/8S dated July 26, 2019, SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DII2/CIR/P/2020/50 dated March 30, 2020, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/2480/1/M dated March 16, 2021, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/ CIR/P/2021/47 dated March 31, 2021, SEBI Circular no. SEBI/H0/CFD/DII2/P/CIR/2021/570 dated June 2, 2021, SEBI Circular no. SEBI/H0/CFD/DII_2/CIR/P/2022/45 dated April 5, 2022. and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/51 dated April 20, 2022 and any subsequent circulars or notifications issued by SEBI in this regard for the procedure to be followed for applying through UPI. Retail Individual Investor have to apply through UPI Mechanism, Retail Individual Investor whose bank is not live on UPI as on date of this circular, may use the other alternate channels available to them viz. Submission of application form with SCSBs/ using the facility linked online trading, demat and bank account list. For further details, please refer the chapter titled "Issue Procedure" beginning on page 222 of the Prospectus.

Sponsor Banker/ Banker to the Issue and Refund Banker to the Issue: Axis Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

Investor should read the Prospectus carefully, including the "Risk Factors" beginning on page 23 of the Prospectus before making any investment decision.

BOSS PACKAGING SOLUTIONS LIMITED On behalf of the Board of Directors Manishbhai Natvarbhai Brahmbhatt Managing Director and Chairman

DIN: 05154924

सार्वजनिक सूचना

मानव कल्याण क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि वार्षिक साधारण समा की बैठक दिनांक 22 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे पता द क्रिस्टल, विकास मार्ग, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली-110092 पर आयोजित की जाएगी। जिसमे निम्नलिखित

- विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखापरीक्षित लेखा
- विवरण पर विचार हेत्। वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट पर विचार हेत्
- 3. वितीय वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट अनुपालन रिपोर्ट पर विधार हेतु।
- वार्षिक बजट के अनुमोदन हेत्। दीर्चकालिक परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक परिचालन योजना के अनुमोदन हेत्।
- अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मामला। मानव कल्याण क्रेडिट

सहकारी समिति लिमिटेड के लिए दिनांकः 28.08.2024 स्थान: दिल्ली

रेलटेल (सीआईएन सं: U64202DL2000G0I107905)

GeM wish erasm : GEM/2024/B/5326665 & 5326703 दिलांक : 27.08.2024 रेलटेल/पूर्वी होत्र "रेलटेल/पूर्वी होत्र के बक्सर व बालासोर अनुमानों में 2 साल की अवधि के लिए ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क के अनुरक्षण और इससे जुड़े अन्य उपकरण के रखनबाद के लिए अनुनक्षण दल की तैनाती और जिसे समान शर्मों पर एक राज के लिए बढ़ाया जा सकता है" के कार्य हेतु पान बोलीदाताओं से ई-बोलियां आगंत्रित करता है। वेरलून GeM बोली शूबना/ GeM बोली दरतावेज https://www.railtel.in, https://eprocure.gov.in और https://gem.gov.in पर उपलब्ध है। मेविष्य के समी परिशिष्ट/ शुद्धिपन आदि को रेसटेन बेबसाइट, शीपीपी पोर्टल और GeM पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को केवल GeM पोर्टल पर अपनी बोली जमा करनी होगी।

muhindra

दिनांक : 27.08.2024

स्थान : दिल्ली

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पॉककत कार्यालयः चनिट नं. 203, अमिटी बिल्डिन, चीरामल अगस्य कॉपीरेट पार्क, फायर ब्रिगंड, स्टेशन के मामने, कमानी जंकान,

Email: cs@bosspackaging.in

एल.बी.एस मेन रोड,कुली परिनाम, मुंबई- 400070 स्राभाष ११+ 22 62929800,CIN:U65922MH2007PLC169791 क्षेत्रीय कार्यालय:- तीसरी मॅजिल, प्लॉट नंबर 46-47, श्रीनाथ टॉवर, कॉस्मो कॉलोनी, आग्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपर - 302021

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभृत ऋणों की वसुली के उद्देश्य से प्रतिभृति हित अधिनियम , 2002 के अंतर्गत महिन्द्रा करल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी द्वारा ऋण की ओर बकाया धनराशि की वसुली हेत् निम्न वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का आधिपत्य लेने के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ती द्वारा अचल सम्पत्ति, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है । जो कि भौतिक आधिपत्य में है ,के ''जहाँ है , जैसी है और जो है ''के आधार पर क्रय हेतु सीलबंद लिफाफों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । जिसका विवरण निम्नानुसार है

ऋणी (याँ)/ जमानतद्ग(रो)	मांग सूचना की दिनांक एवं	सुरक्षित अर्द्धालसम्मन्ति का विवसण सम्पन्ति के सभी अभिन्त अंग जिसमे प्लॉट नं. बी-06, खसरा नं.	आरक्षित मुल्य	धरोहर राहित
ऋणी:खजरंग सह-ऋणी: गीता देवी कुमावत LAN:XSEMJP800708414	20-01-2023 रु.८,८९,७५५/- (रुपये अहर लाख नोवासी हजार सात सी पचप्पन मात्र)	295 एवं 303, स्कीम सुंदर नगर, जो टीलावास, तहसील -सांगानर, ज्यपुर, राजस्थान पर स्थित क्षेत्रफल (111.11 वर्गगळ) विस्तकी सीमाए:-पूर्व में:-प्लॉट नं वी-26,पिश्यम पै:-30 फीट चीड़ी सड़क, उत्तर में:-प्लॉट नं बी-05, दक्षिण में:-प्लॉट नंबर बी-07	₩. 4,44,000/-	転. 44,400/-

विधियन रूप ये भरी नहीं जावेगी अक्षया निविदार जो अंतिय निधि के प्रस्थान प्राप्त होंथी । को वैध निविदा के रूप ये खीकार नहीं किया जावेगा एवं नहनुसार निरस्त कर दी जावेगी । हेएयदी पर कोई स्थान हेय नहीं होंचा ।(2) उदर्शक बर्धित क्षेत्रीय कार्यालय के पने पर प्रमाय खोलने कि निवित्त में गा.10.2024को प्रात: 11.00 में रोपहर 1.00 बर्ज है , निवित्त को प्राधिकत अधिकारी की उपीक्षित में खोला जावेंचा ।(3 शंपत्ति के निरीक्षण की निष्धि 10.09.2024 को प्रात: 11 वर्ज से टोपहर01.00 वर्ज के बीच है। (४)काणी एवं जमानतहर को एतर्नुसार विक्रय के समय व्यक्तित रूप से व्यक्तित होने के निरा सुवित किया जाता है एवं विक्रय के नियम एवं शर्ती के अनुसार उपरांतानुसार वर्षित अवल सम्पन्ति को क्रय करने के लिए प्रस्तावित क्रेलाएण को साथ ला सकीने । (5) यह 30 दिनों का विक्रय नोटिस सरफेरी एक्ट 2002 के तहने काम तीर पर जनमा विशेष रूप से उधारकर्ता 🖯 औ 🏿 सह - उधारकर्ता औ. जमानवदारों को दिया जाता है कि उपर वर्षित अचल संपत्ति को सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक 🗸 प्रभारित किया गया है । महिन्द्रा सरल हार्विक फाइनेंस लिफ्टिड (MRHFL)सुर्विक संनदार के प्राधिकत अधिकारी द्वारा करना ले लिया है । जिसे जहां है जैसी है तथा जिस अवस्था में है और महिन्दा कर ल हार्विक फाइनेंस लिप्टिड की कराया राशि कं आधार पर बंबा जाएगा, बिक्की की नारीख से पहले पूर्ण रूप से जीनामी विज्ञापन रोक्षे जाने के लिए उत्तरदायी है ३(७) अकल सम्पन्ति को मध्यसे कंबी विविद्या (बोली) लगाने वाले को विक्रय किया जानेगा । हालाँक आहेहम्बारकर्ता को अनर बोली (निविदा), यदि आवश्यक हो तो को स्वीकार करने का एकपेव विशेषकाधिकार रहेगा । दी गई संपत्ति का विक्रय आरक्षित पुल्प से कय राशि पर नहीं होगा । (७ MSHFL उपरांक दार्शाचे गई संपत्ति के उपर किसी भी प्रकार के देनदर्शियों के लिए किम्मेदार नहीं होगा । संपत्ति की नीलामी अहां है जैसी है, जो है तथा किस अकस्या में है के आधार पर की नालेगी ।(a) हिमां ह हायट महिन्तु रूपल हार्डामण काहरीम लिमिट'ड के पक्ष में बनाए जाएंगे । 🧇) नीलामी विक्रय की विस्तृत निवम एवं शर्त निव्हीपत निविद्य प्रारूप में मन्यविष्ट की गई हैं । निविद्य प्रारूप उपलेक क्षेत्रकेष कार्यालक पर उपलब्ध हैं । प्राधिकृत अधिकारी के पास चिविदा की तिथि बढ़ाने एवं प्रस्ताव के निषम व शर्ता में परिवर्तन करने का अधिकार मुर्गिक्ष रहेगा । बोली की अन्य निषम एवं उर्ल व अन्य जनकारी हेतु हमारी शाखा था श्चिमाईट www.mahindrahomefinance.com पर जाए । अधिक जानकारी के लिए प्राधिकत अधिकारी से उपरोक्त पर्त पर संपर्क कर

दिनांकः 28.09.2024 स्थानःराजस्थान (ग्राधिकृत अधिकारी), महिन्द्रा रूरल हार्डीरंग फाइनेंस लिपिटेड

FINCORP फोनः 011–4948 7150, फैक्सः 011–4948 7197, 011–4948 7198

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड सीआईएनः U74899DL1991PLC046774 पंजी. कार्यालयः 34, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

ई-मेलः litigation@herofincorp.com वेबसाइटः www.herofincorp.com वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की

धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

तद्दवारा अधोलिखित को यह सूचना सर्व की जाती है:

मेसर्स सुशील स्पंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता), जिसका पंजीकृत कार्यालय ४८१७, गली नंबर 24, माथुर लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली— 110002, यहाँ पर भी :0 गोहाना रोड, गांव मेहराणा, पानीपत, हरियाणा-132103 और 44/45, गांधी मंडी, पानीपत, हरियाणा-132103 है। श्री **सुशील गर्ग (सह—उधारकर्ता),** निवासी :44 / 45, गांधी मंडी, पानीपत, हरियाणा—132103 और यहाँ पर भी :38, किशोर गार्डन, पुलिस चौकी के पास, असंध रोड, पानीपत, हरियाणा-132103

श्री दीपक गर्ग (सह—उधारकर्ता), निवासी : 38, किशोर गार्डन, पुलिस स्टेशन, असंध रोड, पानीपत, हरियाणा-132103

सुश्री अनीता गुप्ता (सह—उधारकर्ता), निवासी : 38, किशोर गार्डन, पुलिस स्टेशन के पास, असंध रोड, पानीपत, हरियाणा-132103 में और यहाँ पर भी 44/45, गांधी मंडी, पानीपत,

सुश्री सलोनी (सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता), निवासी : 38, किशोर गार्डन, पुलिस स्टेशन, असंध रोड, पानीपत, हरियाणा-132103

(इसके पश्चात "कर्जदार" संदर्भित)

ऊपर वर्णित ऋणधारकों ने एचएफसीएल के पक्ष में अधोलिखित अचल सम्पत्ति को गिरवी रख कर एचएफसीएल से संपत्ति के समक्ष ऋण के रूप में रु. 3.00.00.000 /— (केवल तीन करोड़ रुपये) की राशि की एक साख सुविधा प्राप्त करने के लिए मै. हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (यहां के बाद 'एचएफसीएल' वर्णित) जिसका पंजीकृत कार्यालय 34, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली—110057 में स्थित है, के साथ दिनांकित 22.08.2013 को ऋण समझौता को निष्पादित किया

टी.पी. स्कीम नं. 15, आबादी किशोर गार्डन, पटी इंसार, तहसील व जिला पानीपत में स्थित प्लॉट नं. 61, माप 580.83 वर्ग गज यानि 10 बिस्वा 3—1/2 बिस्वांसी, 407/3480 भूमि का हिस्सा है जिसका माप ४बी ७बी है तथा जो खसरा नं. 1462/1(2-17), 1462/2(0-6), 1463/1(1-1) 1463 / 2(03) किता 4 में आता है, उत्तरः प्लॉट नं. 60, पश्चिमः सड़क 12' चौड़ी, दक्षिणः प्लॉट नं.

उपरोक्त सम्पत्ति को यहां के बाद ''प्रतिभूत परिसम्पत्ति'' कहा जाएगा। प्रतिभूत परिसम्पत्ति को ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ ऋण(णों) के नियत प्रतिभुगतान को प्रतिभूत करने के लिए प्रतिभूति / संपार्श्विक के रूप में एचएफसीएल के पास बंधककृत किया गया है। हालांकि, ऋणधारकों ने ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ ऋण(णों) के नियत प्रतिभगतान में चक की

है। इस संदर्भ में, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां के बाद ''सरफैसी अधिनियम 2002'' के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत एचएफसीएल के पास उपलब्ध उपरोक्त ऋणधारक के अंतिम ज्ञात उपलब्ध पतों पर मांग सूचना तिथि:07.08.2024 को भेजी गई थी, लेकिन कुछ नोटिस वितरित नहीं किए गए।

इस प्रकाशन के द्वारा एचएफसीएल एतद्द्वारा एक बार पुनः उपर्युक्त कर्जदारों को निर्देश देती है कि इस सूचना के प्रकाशन के साठ (60) दिनों के भीतर 06.08.2024 के अनुसार देय रु.3,06,81,079. 24/— (रुपये तीन करोड़ छह लाख इक्यासी हजार उन्न्यासी और चौबीस पैसे मात्र) की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें। भुगतान करने में विफल रहने पर एचएफसीएल ऋणधारक तथा / अथवा सह—ऋणधारकों की प्रतिभत परिसम्पत्ति का कब्जा तथा बिक्री करने सहित प्रतिभत परिसंपत्ति के समक्ष सरफैसी अधिनियम 2002 के समस्त अथवा किसी प्रावधान के अंतर्गत समस्त अनिवार्य कार्रवाइयां तथा सरफैसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य कार्रवाई करेगी अथवा राहत देगी।

पुनः सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार ऋणधारकों को एतद्दवारा किसी भी रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति का बिक्री / पट्टा के माध्यम से या व्यवसाय द्वारा बिक्री / अंतरण अथवा स्वत्व-त्याग के अधिकार से वंचित किया जाता है तथा ऐसा करना उपरोक्त ऋण अनुबंधों एवं / अथवा सरफैसी अधिनियम 2002 के उपर्युक्त ऋण अनुबंधों के प्रावधानों का

एतद्दवारा आम जनता को भी सुचित किया जाता है कि वे किसी भी रूप में उपरोक्त प्रतिभृत परिसम्पत्ति का व्यवसाय न करें क्योंकि एचएफसीएल का उस पर प्रथम तथा एक्स्क्लसिव चार्ज विद्यमान है। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः पानीपत हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड तिथिः 28.08.2024

अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

(सीआईएन : L99999DL1984PLC019052) पंजीकृत कार्यालय : 217, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र, रोड नंबर 44 के साथ, पीतमपुरा, नई दिल्ली कृ 110034 वेबसाइट : www.agarwalduplex.net ; ई—मेल आईडी : agarwalduplex1984@gmail.com

दूरभाष संख्या : +91 11 47527700, फैक्स - +91 11 47527777 वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 40वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितंबर 2024 को सुबह 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 और परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 05 मई, और सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28| दिसंबर, 2022 और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ आगे विस्तार किया गया है। परिपत्र संख्या SEBI@HO@CFD@PoD -2@P@CIR@2023@4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 और परिपत्र संख्या SEBI@HO@CFD@CFD -PoD-2@P@CIR@2023@167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के अनुसार कंपनियों को सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से AGM आयोजित करने की अनुमति है। इसलिए कंपनी की ।ळड नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए टब् के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट केवल शेयरधारकों को ई—मेल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भेजी जाएगी, यदि उनका ई–मेल पता डिपॉजिटरी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है। एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक की सुचना की भौतिक प्रतियों को भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.agarwalduplex.net/notices स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है www.evotingindia.com.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते और केवाईसी को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी को agarwalduplex1984@gmail.com पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को beetalrta@gmail.com पर लिखकर अपने केवाईसी को अपडेट करें, साथ ही कंपनी और आरटीए वेबसाइट पर उपलब्ध हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति भी भेजें। डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें।

भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अद्यतन नहीं करने वाले सदस्यों के लिए एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग का तरीका एजीएम की सुचना में दिया गया है।

ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, आप श्री पुनीत मित्तल महाप्रबंधक, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से beetaIrta@gmail.com दूरभाष सख्या 011 29961281 पर संपर्क कर सकते हैं या श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल,) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेड (पूर्व), मुंबई — 400013 पर संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या 022–23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं। बोर्ड के आदेशानुसार

अग्रवाल डप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड हस्ता. / – (रेणु मलिक)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

CIN: L18101RJ1992PLC006952

Registered Office: Village Jaitpur, Jaipur-Sikar Road Place, Jaipur, Rajasthan 303 704 | Tel: 01423-224001 Corporate Office: 28, 4th Floor, Lakshmi Complex, M.I. Road, Jaipur - 302001, Rajasthan Tel. No.: 0141-2361132,

Website: www.mayuruniquoters.com, E-mail: secr@mayur.biz

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS IN REGARD TO BUYBACK OF SECURITIES

This advertisement ("Advertisement") is being issued by Mayur Uniquoters Limited ("Company"), to the Eligible Shareholders holding Equity shares as on the Record Date (i.e., Friday, August 23, 2024), in regard to the buyback of up to 5,00,000 (Five Lakh Only) fully paidup equity shares of the Company, each having a face value of INR 5/-(Indian Rupees Five only) ("Equity Shares"), on a proportionate basis, through the "tender offer" route in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") using Stock Exchange Mechanism, at a price of INR 800/-(Indian Rupees Eight Hundred only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding INR 40,00,00,000 (Indian Rupees Forty Crores only) excluding Transaction Costs ("Buyback"). The Public Announcement dated Friday, August 9, 2024 in regard to the Buyback was published on Monday, August 12, 2024.

On Tuesday, August 27, 2024 the Company has also sent the Letter of Offer dated Monday, August 26, 2024 along with the Tender Form only in electronic form to all Equity Shareholders/ Beneficial Owners of Equity Shares as on the Record Date who have registered their e-mail IDs with the Depositories/ the Company, in accordance with the Buyback Regulations and such other circulars or notifications, as may be applicable. Further, in terms of Regulation 9(ii) of the Buyback Regulations, if the Company receives a request from any Eligible Shareholder for a physical copy of the Letter of Offer, the same shall be provided. Please refer to paragraph 20.28 on page 45 of the Letter of Offer for further details

A brief schedule of activities in relation to the Buyback are set out below:

Activity	Date	Day
Buyback Opening Date	August 29, 2024	Thursday
Buyback Closing Date	September 04, 2024	Wednesday
Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents by the Registrar to the Buyback	September 04, 2024	Wednesday

For a detailed schedule of activities, please refer to page 4 of the Letter of Offer. The details of the Buyhack Entitlement are as follows

1	the details of the Buyback Entitlement are as follows.		
	Category of Eligible Shareholders	Buyback Entitlement*	
	Reserved Category for Small Shareholders	1 (One) Equity Share for every 27 (Twenty-Seven) Equity Shares held on the Record Date	
97	General Category for all other eligible Shareholders	3 (Three) Equity Share for every 296 (Two Hundred and Ninety-Six) Equity Shares held on the Record Date	

*The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares

using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for

Reserved Category for Small Shareholders is 3.71143448427391% and General Category for all other Eligible Shareholders is

1.01355013989615%. Also, the numbers arrived at using the actual Buyback Entitlement may not conform exactly to the Buyback Entitlement printed in the Tender Form due to rounding-off of the factor. For further information on the ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each category, please refer paragraph 19.6 on page no. 36 of the Letter of Offer. The steps to be followed by Eligible Shareholders in order to check their Entitlement on the website of the Registrar to the Buyback as

provided on the cover page of the Letter of Offer are:

Click on https://www.beetalmail.com/ipod

Select the name of the Company - Mayur Uniquoters Limited CLICK ON DPID/Client-ID/Folio No Query

Enter your "Folio Number" or "NSDL DPID/Client ID" or "CDSL Client ID" Then click on 'Search' button

The entitlement will be displayed on the screen Download appropriate form and fill up the details

A copy of the Letter of Offer (along with the Tender Form and Form SH-4) shall be available on the websites of the Company (www.mayuruniquoters.com), Manager to the Buyback (www.dnafinserv.com), Registrar to the Buyback (www.beetalfinancial.com) and is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com).

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts full and final responsibility for all the information contained

in this Advertisement and confirms that this Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

MANAGER TO THE BUY-BACK

D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065.

CIN: U74899DL1981PTC012709

DIN: 00022395

Tel.: +91 11 41326121. 40167038: Contact Person: Ms. Radhika Pushkarna/ Mr. Amitkumar Gattani **E-mail**: investors@dnafinserv.com; **Website**: www.dnafinserv.com **SEBI Read. No.** INM000011484 Validity Period: Permanent

BEETAL FINANCIAL & COMPUTER SERVICES PVT. LIMITED BEETAL HOUSE, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Das Mandir, New Delhi- 110 062 **Tel No.:** +91 11-29961281-83; Fax No.: +91 11-29961284

REGISTRARTOTHE BUY-BACK

Contact Person: Mr. Punit Mittal Email: beetal@beetalfinancial.com;beetalrta@gmail.com Website: www.beetalfinancial.com SEBI Registration No.: INR000000262

Validity Period: Permanent CIN: U67120DL1993PTC052486

For and on behalf of the Board of Directors of Mayur Uniquoters Limited

Arun Kumar Bagaria

Pawan Kumar Kumawat M. No: ACS25377

Date: 27-08-2024 Place: Jaipur

Suresh Kumar Poddar Chairman and Managing Director & CEO Whole Time Director DIN: 00373862

Company Secretary and Compliance Officer

प्रत्येक बूथ पर भाजपा २०० सदस्य बनाएगी : प्रदेश महामंत्री श्रवण विहिप का स्थापना दिवस, ६५ फीट की ध्वजारोहण

संवाददाता)। भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान 1 सितम्बर से प्रारंभ होने वाला है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर व प्रदेश स्तर पर कार्यशाला सम्पन्न हो चुकी है व जिला स्तर पर भी पूर्ण हो गई है। इसके बाद मंडल स्तर से लगाकर के बुथ स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवा करके सदस्यता त्तरस्था अरुप कराव करेक तास्थ्या जानमा का करना पर्याचन तर । अभियान को आगाज करेंगे। इस बार सितव्यर तक रहेगा। इसी बीच 11 सितव्यर सदस्यता ग्रहण करने के लिए दिए गए से 18 सिताबर के बीच बूब संपर्क नम्बर पर मिस्कॉल, नामी एप व अभियान रहेगा। जिला मीडिया प्रभारी क्यूआरकोड़ के माध्यम से सदस्यता अरबिंदसिंह भाटी ने बताया कि यह बात अभियान को सफल बनाया जाएगा। साथ ही जिसके पास मोबाईल नहीं है उनको ग्रहण करवाई जाएगी। इस बार प्रत्येक बूथ हुई कार्यशाला में कही। भाजपा जिला



पर 200 से अधिक सदस्य बनने का लक्ष्य 31 अगस्त तक कार्यशाला पूर्ण हो जाएगा। रखा गया है जो सभी कार्यकर्ता अपने अपने सदस्यता अभियान का लक्ष्य आमजन को साथ ही 1 सितम्बर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बृथ पर जाकर के घर –घर जाकर नए हमारे विचारधारा से जोड़ना और उद्देश्य दल सदस्य जोड़ने का कार्य करेंगे। सदस्यता का विस्तार करना है। 6 अप्रैल 1980 को अभियान का पहला चरण 1 सितम्बर से 21 भाजपा की स्थापना हुई तब नारा था सुख नहीं संघर्ष करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहठ ने कहा कि सदस्यता अभियान को हम सभी को मिलकर के सफल बनाना है इसके लिए जिसको भी जो भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवणसिंह बगड़ी ने भी जिम्मेदारी मिली हो उसका निर्वहन करना आपका दायित्व बनता है। हम सभी राजसमन्द भाजपा जिला कार्यालय पर फार्म भरवा करके भाजपा की सदस्यता सदस्यता अभियान को लेकर के आयोजित आज से यह प्रण लेके निकले की इस

पर लाकर के अग्रणी रहेंगे। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्रसिंह राठौड़ ने कहा कि राजसमन्द जिला जनप्रतिनिधियों के रूप में पहले से ही कांग्रेस मुक्त है। जिले में सांसद भाजपा का सभी चारों विधायक भाजपा के व जिला प्रमुख भी भाजपा के ही हैं। अभियान के जिला संयोजक जवाहरलाल जाट ने कहा कि इस अभियान के तहत जिले में विधानसभा व मण्डल स्तर तक महस्यता अधियान के मंग्रोजक व मह संयोजक की नियुक्ति कर दी है। इस दौरान राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, भीम विधायक हरिसिंह रावत, पूर्व विधायक व उदयपुर जिला संगठन प्रभारी बंशीलाल खटीक, राजसमंद प्रधान अरविन्दसिंह राठौड, महामंत्री सनील गांधी, शोभालाल रेगर सहित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता

सार्वजनिक सूचना

गादा कार्यात्यः आईसीआईसीआई वैंक लिमिटेड शाल टावर प्लॉट नंबर-23, न्य रोहतक रोड करोल बाग नई दिखी-110005

फ्लैट नंबर 308, तीसरी मॉजल, क्रेस्ट पर स्थित, प्लो नंबर ए-4, एयरपोर्ट ए-क्लेव स्कीम, दुर्गापुरा, जवफु

८१००। लॉट नंबर जी/७२५ रोडिग्री एन्क्लेस आसामीय योड

नाथद्वारा (प्रातःकाल संवाददाता)। विश्व हिंद परिषद के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसके तहत ४६ फीट की ध्वजा का ध्वजारोहण किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री गोविंद प्रजापत ने बताया की श्रीनाथजी की प्रसिद्ध पवन पीठ के अंदर गरुड़ शिखर आश्रम पर विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष में 65 फीट की ध्वज का ध्वजारोहण कार्यक्रम गरुड शिखर आश्रम के संत अवधत शरणानंद महाराज व राजसमंद विधायक दिसी माहेश्वरी के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस

अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संत सिंहत अन्य अतिथियो का स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर अवधूत महाराज ने विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से कार्यकर्ताओं को बताया। इस अवसर पर विहिप

सफ्यिनोद कुमार (LBBRT000024 होक विहार, वार्ड नंबर 1, राजस्थान



के जिला धर्म प्रचार प्रसार प्रमख उमेश चन्द्र सोनी,विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मुकेश जोशी, पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कमलेश पालीवाल, पार्षद पूरन श्रीमाली, दिल्ली केंद्र से आए प्रवास अधिकारी प्रदीप शर्मा मौजद रहे।

भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, आईसीआईसीआई वैंक लिमिटेड के लिए

2024

रेलसेवाएं मार्ग परिवर्तित रहेगी

जयपुर (का.सं.)। पश्चिमी रेलवे के वडोदरा मण्डल के बाजवा-रनोली के मध्य पानी भराव हो जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित निम्न रेलसेवाएं प्रभावित रहेगी:- मार्ग परिवर्तित रेलसेवाएं (प्रारम्भिक स्टेशन से) 1. गाडी संख्या 16534, बैगलुरू जोधपुर रेलसेवा दिनांक 25.08.24 को बैगलुरू से प्रस्थान की है, वह रेलसेवा परिवर्तित मार्ग वाया वडोडरा-गोधरा-रतलाम वन्देरिया-अजमेर-मारवाड़ होकर संचालित होगी। 2. गाडी संख्या 20475, बीकानेर-पुणे रेलसेवा दिनांक 26.08.24 को बीकानेर से प्रस्थान की है, वह रेलसेवा परिवर्तित मार्ग वाया आणंद-गोधरा-वडोदरा होकर संचालित होगी।

भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित. रेलसेवाएं मार्ग परिवर्तित रहेगी

जयपर (का.मं)। पश्चिमी रेलवे के वहोदरा मण्डल के के मध्य पानी भराव हो जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित निम्न रेलसेवाएं प्रभावित रहेगी -- मार्ग परिवर्तित रेलसेवाएं (प्रारम्भिक स्टेशन से) 1. गाडी संख्या 22915, बान्द्रा टर्मिनस-हिसार रेलसेवा जो दिनांक 26.08.24 को बान्दा टर्मिनस से प्रस्थान की है, वह रेलसेवा परिवर्तित मार्ग वाया वडोदरा-गोधरा रतलाम-चन्देरिया-अजमेर-मारवाड होकर संचालित होगी। 2. गाडी संख्या 12480, बान्द्रा टर्मिनस-जोधपुर रेलसेवा जो दिनांक 26.08.24 को बान्द्रा टर्मिनस से प्रस्थान की है, वह रेलसेवा परिवर्तित मार्ग वाया वडोदरा-गोधरा-रतलाम-चन्देरिया-अजमेर-मारवाड़ होकर संचालित होगी। 3. गाडी संख्या 14708, दादर-लालगढ रेलसेवा जो दिनांक 26.08.24 को दादर से प्रस्थान की है, वह रेलसेवा परिवर्तित मार्ग वाया वडोदरा-गोधरा-रतलाम-चन्देरिया-अजमेर-मारवाड़ होकर संचालित होगी। **4.** गाडी संख्या 12989, दादर-अजमेर रेलसेवा जो दिनांक 26.08.24 को दादर से प्रस्थान की है, वह रेलसेवा परिवर्तित मार्ग वाया वडोदरा-गोधरा रतलाम-चन्देरिया होकर संचालित होगी।

नॉन इण्टरलॉकिंग के कारण रेल यातायात प्रभावित, जयपुर-मैसूरू रेलसेवा मार्ग परिवर्तित रहेगी

जयपर (का.सं.)। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा बैगलुरू मण्डल पर पेनुकोन्डा-मक्काजीपल्ली रेलखण्ड के मध्य अनुरक्षण कार्य हेतु दिनांक 10.09.24 से 12.09.24 तक (03 दिन) नॉन इण्टरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 12976, जयपुर-मैसूरू रेलसेवा जो दिनांक 09.09.24 को जयपुर से प्रस्थान करेगी वह रेलसेवा परिवर्तित मार्ग वाया धर्मावर श्री सत्यसाई प्रशांति नित्तयम-पेनुकोन्डा-हिंदुपुर होकर होकर संचालित होगी।

लिंक रैक देरी से चलने के कारण रेलसेवाएं रीशड्यूल रहेगी

जयपुर (का.सं.)। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण निम्न रेलसेवाएं प्रभावित रहेगी। रीशङ्यूल रेलसेवाएं 1. गाडी संख्या 16588, बीकानेर-यशवन्तपुर दिनांक 27.08.24 को बीकानेर से अपने निर्धारित समय 19.10 बजे के स्थान पर 04 घंटे 20 मिनट देरी से 23.30 बजे प्रस्थान करेगी। **2.** गाडी संख्या 12956, जयपुर-मुम्बई सेट्रल दिनांक 27.08.24 को जयपुर से अपने निर्धारित समय 14.00 बजे के स्थान पर 04 घंटे 30 मिनट देरी से 18.30 बजे प्रस्थान करेगी।

लिंक रैक में देरी के कारण मालदा टाउन खातीपरा-मालदा टाउन स्पेशल रेलसेवा रह रहेगी

जयपुर (का.सं.)। लिंक रैक में देरी के कारण मालदा टाउन-खातीपरा-मालदा टाउन स्पेषल रेलसेवा रह किया जा रहा है। खातपुरा-भारता, टाउन स्पष्ट (रासवा ६ किया जा रहा है) उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार लिंक रैंक में देरी के कारण निम्नलिखित रेलसेवाएं रह रहेगी:-1. गाडी संख्या 03409, मालदा टाउन -खातीपुरा स्पेशल रेलसेवा दिनांक 29.08.24 को रह रहेगी। 2. गाडी संख्या 03410, खातीपुरा-मालदा टाउन स्पेशल रेलसेवा दिनांक 30.08.24 को रह रहेगी।

कोलकाता-मदार-कोलकाता एवं सन्तरागाछी-अजमेर-सन्तरागाछी, रेलसेवाओं का बरगवाँ स्टेशन पर टहराव करेगी

जयपर (का.सं.)। रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों की सविधा . हाता-मदार-कोलकाता एवं सन्तरागाछी-अजमेर-सन्तरागाछी रेलसेवाओं का बरगवॉ स्टेशन पर ठहराव दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार:- 1. गांडी संख्या 19607, कोलकाता-मदार एक्सप्रेस रेलसेवा दिनांक 30.08.24 से 28.02.25 तक बरगवॉ . स्टेशन पर 05.46 बजे आगमन एवं 05.48 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 19608, मदार-कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 27.08.24 से 26.02.25 तक बरगवॉ स्टेशन पर 20.18 बजे आगमन एवं 20.20 बजे प्रस्थान करेगी।

भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित. परिवर्तन संसार का नियम है-मुनि प्रणम्य सागर

पार्श्वनाथ कथा में उमडे श्रद्धाल

जयपुर (का.सं.)। संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर महामनिराज के परम प्रभावक शिष्य अर्हम योग प्रणेता मुनि प्रणम्य सागर महाराज के मुखारबिन्द से मीरा मार्ग अहम परा के आदिनाथ भवन पर कवि भूघरदास द्वारा विरचित पार्शनाथ पर अंकुश लगाकर ऊपर उठना है। महासुनिराज एवं आचाय समथ पूराण के चीथे अधिकार का चाचन इन संसार भोगों से आसिक का सगर महाराज के चित्र का जवकारों किया गया। जिसमें मुनि श्री ने कहा इटना हो उदासीनता है। हम जब के बीच अनावरण किया गया। कि इस माने या ना माने, चाहे या ना कोई आशा करते हैं, वह पूर्ण नहीं भगवान आदिगाथ के विक संसाक्ष के समक्ष के साथ के साथ के साथ के साथ अनावरण किया गया। कि इस माने या ना माने, चाहे या ना कोई आशा करते हैं, वह पूर्ण नहीं प्राचन आदिगाथ के विक संसाक्ष के साथ समय के साथ बुद्ध, शरार व आत्म ज्ञान का विकास जरुरी है। यह संसार असार हैं। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित हैं। मृत्यु के दिन का किसी को पता नहीं हैं कि यह कब आ जाए। वह इसे वैराग्य त्वता समझकर उदासीन हो जाता एवं मुनि प्रणस्य सागर महाराज हो मुनि श्री ने बताया कि उदासीनता। अर्च्य चढाया गया। तत्पश्चात शिविर का मतत्व मुँह लटकाना हो नहीं में आये अंतरप्याओं रण निकार बल्कि अपनी इच्छाओं एवं इन्द्रियों ज़िरोमणि आचार्य विद्यासागर भेट कर सम्मानित किया।



हताशा ही निराशा को जन्म देती है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे तो उदास हो जाए। इससे पूर्व आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की संगीतमय पूजा की

तत्पश्चात मुनि प्रणम्य सागर महाराज के पाद पक्षालन एवं शास्त्र भेट करने का पुण्यार्जन मुनि अक्षय सागर चातुर्मास समिति भाईन्दर के निलन शाह, लिलत जैन, अनिल शाह ने प्राप्त किया। समिति के सांस्कृतिक मंत्री जम्बू सौगानी सदस्य अशोक छाबड़ा, अशोव में आये अंतरप्पाओं द्वारा संत गोधा ने अतिथियो को स्मिति चिन्ह

भू-गर्भ से अवतरित भगवान आदिनाथ का नवम प्रादुर्भाव दिवस धुमधाम से मनाया



जयपुर (का.सं.)। खो के प्रदेश महामंत्री विनोद जैन नागोरियान स्थित श्री दिगम्बर जैन कोटखावदा ने बताया कि इस अतिशय क्षेत्र प्रांटिर शांतिनाथ जी - प्रौके पर हो हितसीय आयोजन की खोह में 2015 में भूगर्भ से किया गया। पहले दिन भगवान अवतरित अतिशय कारी भगवान की महाआरती एवं 48 दीपकों आदिनाथ की प्रतिमा का नवम् द्वारा ऋद्धि मंत्रों से युक्त भक्तामर

प्रादर्भाव दिवस भक्ति भाव से स्तोत्र अनुष्ठान किया गया। या गया। दूसरे दिन प्रात: मंत्रोच्चार से राजस्थान जैन युवा महा सभा भगवान के जलाभिषेक एवं

पंचामत अभिषेक एवं शांतिधारा की गई। तत्पश्चात सौधर्म इन्द्र कमल -मंजू वैद के नेतृत्व में भगवान आदिनाथ पूजा विधान का आयोजन किया गया इस मौके पर मण्डल पर मंत्रोच्चार करते हुए इन्द्र -इन्द्राणियों द्वारा अष्ट दल्य के अर्घ्य चढाएं गये। भक्ति संगीत पर विनोद -दीपिका जैन कोटखावदा, भागचन्द -रेखा पाटनी, संजय - मीनू छाबड़ा, प्रमिला पाटनी सहित समाजसेवी मनोज सोगानी, रवि जै श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य किए।

अन्त में महाअर्घ पश्चात महाआरती की गई। इस मौके पर सहित बडी संख्या में गणमान्य

जर्जर विद्यालय भवन की एनओसी देने वाले प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्यवाही हो



खेरवाड़ा। जागरूक विद्यार्थी संगठन की बैठक में उपस्थित ।

खेरवाडा भरने, सभी विद्यालय की जमीनों की पत्थरगढ़ी कराने. वर्षों से बकाया छात्रवृत्ति देने और महंगाई के अनुपात में छात्रवृत्ति बढाने, कुक कम हेल्पर का वेतन बढ़ाने और उन्हें स्थाई करने सभी

(प्रात:काल और सहायक अभियंता और बिल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संवाददाता)। जागरूक युवा पास करने वाले प्रधानाध्यापक विद्यार्थी संगठन की बैठक पेसा सहित सभी जिम्मेदार लोगो के कार्यालय सुंदरा में सपन हुईं। विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने और विद्यालय भवन और रिका पदों को बैठक में एक कक्षा एक अध्यापक ऐसे सभी ठेकेदारों को आजीवन भरने की मांग को लेकर विद्यार्थियों के हिसाब से रिक्त पदों को तत्काल ब्लेक लिस्टेड करने, जरूरत अनुसार नए भवन निर्माण कराने आदि मांगों को लेकर विद्यालय स्तर पर जागरुक युवा विद्यार्थी एक शपथ पत्र भरवाया गया जिसमें संगठन की इकाई गठित कर लिखा है कि वे किसी भी आंदोलन आंदोलन करने का निर्णय लिया। में भाग लेंगे तो उन्हें रेस्टिकेट कर खेरवाड़ा, नयागांव और केसरियाजी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेरोजगारों को नौकरी देने घटिया के उपखंड अधिकारियों को प्राचार्य से इसका जवाब मांगा विद्यालय भवन निर्माण के लिए प्राथमिकता से सभी सरकारी जाएगा। बैठक में भ्रष्टाचार विरोधी

और अधिधातकों ने आंटोलन की विद्यालय के सभी विद्यार्थियों से जिम्मेदार टेकेदार, जांच करने और विद्यालयों की पत्थरगढ़ी कराने के संघर्ष समिति के सदस्य भी मौजूद अप्रुव करने वाले संबंधित कनिष्ठ लिए आंदोलन किया जाएगा । रहे।

हर्षावाडा के एसडीएमसी सदस्य

चंदलाल ने बताया कि पिछले दिनों

यनिफाइड पेंशन योजना कर्मचारियों को मंजर नहीं

डंगरपर (प्रात:काल संवाददाता)। अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ तथा अखिल सुन्ध्य (प्रतारकाल सवाददाता)। जान्तर भारताच राज्य सरकार कम्यारा । महास्वत वरा आकरा राज्याना राज्य कमंचारी संचुक महासांक ने संबंध सरकार हारा श्रीपत यूनिकाइड पेशन योजना को अस्यीकार कर दिया है। एजाईएसजीईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाव लांबा, महासचिव श्रीकुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महाली राज्या तथा राष्ट्रीय सचिव एवं संयुक्त महासंघ के महामंत्री महावीर सिक्ताग ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में कहा है कि संशीय सरकार ने भ्रमित करने के लिए एनपीएस का नाम बदलकर यूपीएस कर दिया है।

MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

CIN. L18101R.1989P.CCXM692

CIN. L18101R.1989P.CCXM692

Linguistered Office: Village, Julgou, Jalgour Skar, Road Place, Jalgou, Plassishian 303.704 Tel: 01425
Jornalo Office: 23. 4th Priore, Lalasimir Complex, M.I. Road, Jalgour – 302001, Rejainthan Rel. No.: 0144

Wildoller were: Impropriated soon in Final Secret Embraud Size

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS IN REGARD TO BUYBLICK OF SECURITIES.

over solvedoe or activities in relation to the boyotax are set out below.	
Activity	

Activity	Date	Day
Buyback Opening Date	August 29, 2024	Thursday
Buyback Closing Date	September 04, 2024	Wednesday
Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents by the Registrar to the Buyback	September 04, 2024	Wednesday

Category of Eligible Shareholders	Buyback Entitlement*
Reserved Category for Small Shareholders	1 (One) Equity Share for every 27 (Twenty-Seven) Equity Shares held on the Record Date
General Category for all other eligible Shareholders	3 (Three) Equity Share for every 296 (Two Hundred and Ninety-Six) Equity Shares held on the Record Date

MANAGER TO THE BUY-BACK REGISTRARTOTHE BUY-BACK



D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED 13, Community Centre, East of Kaikash, New Deh TeL: +91 11 41326121, 40167038; Contact Person; Ms. Rachika Pushkama/Mr. Ar

BEETAL

BEETAL FINANCIAL & COMPUTER SERVICES PVT.LIMITE BEETAL HOUSE, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shoppin Certre, Near Dash Harsukh Das Mandir, New Derh - 110 092 THI No.: 49 11 - 129961281-83, Fax No.: 491 11-29961284 Contact Person: Mr. Purit Mittal

and Managing Dir DIN: 00022395